

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 19.12.2020

संजीव शर्मा हत्याकाण्ड में वांछित अभियुक्त राजेन्द्र को आलाकत्ल पिस्टल सहित थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शिकारपुर श्री गोपाल सिंह निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी सलेमपुर श्री प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 18.12.2020 थाना सलेमपुर पर नियुक्त उ0नि0 संजय कुमार मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली संजीव शर्मा हत्याकाण्ड में आरोपी राजेन्द्र अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मुखबिर बताये गये स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त राजेन्द्र को समय करीब 14.10 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्त की निशादेही पर अभियुक्त के घर से तकिये के नीचे छिपाकर रखी गई आलाकत्ल पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- राजेन्द्र पुत्र नत्थी सिंह निवासी अम्बा कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 पिस्टल 32 बोर मय 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त राजेन्द्र व मृतक संजीव शर्मा आपसे में दोस्त थे तथा अक्सर साथ बैठकर शराब का सेवन किया करते थे। दिनांक 14.12.2020 को अभियुक्त राजेन्द्र व संजीव शर्मा साथ में शराब का सेवन कर रहे थे तभी किसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो गया तथा अभियुक्त राजेन्द्र द्वारा संजीव शर्मा को गोली मार दी गई जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं-275/20 धारा 304 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री प्रताप सिंह थाना प्रभारी सलेमपुर
- 2- उ0नि0 संजय कुमार
- 3- का0 शेखर, का0 अक्षय तोमर